



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ४४ ९ कार्तिक १९४० (श०)
पटना, बुधवार, ३१ अक्टूबर २०१८ (ई०)

विषय-सूची		पृष्ठ
	पृष्ठ	
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	पूरक
		पूरक-क
		4-5

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

23 अक्टूबर 2018

सं० 6/वि०पत्रा०-24-48/2014-3085/वा०कर-श्री प्रवीण कुमार, बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, सम्प्रति राज्य-कर उपायुक्त को Good and Services Tax Network, New Delhi में Assistant Vice President के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 14.10.2018 से 13.10.2019 के लिये विस्तारित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप-सचिव।

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

अधिसूचना

12 अक्टूबर 2018

सं० कारा/स्था० (चि०) 01-03/2016/7365—डा० अमरजीत कुमार, नियमित चिकित्सा पदाधिकारी, उपकारा, बेनीपुर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में नियमित चिकित्सक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनि कुमार, उप-सचिव-सह-उप निदेशक (प्र०)।

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

4 अक्टूबर 2018

सं० वि०प०स्था०-117/2010---2083(2)/वि०प०पटना, दिनांक 4/10/2018---श्री राम प्यारे सिंह, उप सचिव बिहार विधान परिषद् को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 10/9/18 से 13/9/18 तक कुल 4 दिनों की रूपान्तरित छुट्टी एवं दिनांक 8/9/18 एवं 9/9/18 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम - 234 के अधीन प्रावधानी रूप से प्रदान की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राम प्यारे सिंह उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे उप सचिव के पद पर बने रहते।

आदेश से,
अभय कुमार झा, अवर सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

28 सितम्बर 2018

सं० 1/स्था० (2) 204/2018-3107—एम० जे० सी० संख्या— 1519/2014 प्रमोद कुमार झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.09.2018 को पारित न्यायादेश एवं बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक— 5/प्र०-37-03/2018 (02) लो० से० आ० दिनांक 20.09.2018 के द्वारा प्राप्त विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के

आलोक में श्री प्रमोद कुमार झा, तत्कालीन प्रभारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त (दिनांक 31.10.2017) प्रभारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी को दिनांक 21.12.2011 के प्रभाव से (भूतलक्षी प्रभाव से) जिला गव्य विकास पदाधिकारी के पद पर अपुनरीक्षित वेतनमान 9300—34800/— + ग्रेड पे रू0 4800/— में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. यह प्रोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम0 जे0 सी0 संख्या—1519/2014 में पारित आदेश के आलोक में दिया गया है। अतएव इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं माना जायेगा। इस आधार पर किसी अन्य के द्वारा किये गये दावा मान्य नहीं होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

22 अक्टूबर 2018

सं0 21/एस.एस.सी.—03/2016, सा.प्र. 13956—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या—9543 दिनांक—08.07.2016 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पदों की सूची में सम्मिलित परिवहन विभाग के “प्रवर्तन अवर निरीक्षक” पद को उक्त सूची से तत्कालिक प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
हिमांशु कुमार राय, संयुक्त सचिव।

निगरानी विभाग

सूचना भवन, पटना

अधिसूचना

25 अक्टूबर 2018

सं0 नि०वि०/विविध—गृह—130/2018—4007—माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस नं०—22616/2018 बिनेश कुमार बनाम् बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 26.04.2018 को आदेश पारित कर मोतिहारी थाना कांड संख्या—617/2017 का अग्रतर अनुसंधान का प्रभार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। अतः अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए तत्कालिक प्रभाव से मोतिहारी थाना कांड संख्या—617/2017 के अधिग्रहण एवं अनुवर्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 32—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा/नि0को0(क)—70/2012—7243

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

10 अक्टूबर 2018

श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति काराधीक्षक (एक अन्य मामले में निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के विरुद्ध उनके मंडल कारा, मधुबनी में उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापन के दौरान दिनांक 11.09.2012 को विचाराधीन बंदी मो0 साबीर के पलायन के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक 2404 दिनांक 08.05.2013 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त विभागीय आदेश ज्ञापांक 4794 दिनांक 03.09.2014 के द्वारा “निंदन” एवं “दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड” अधिरोपित किया गया था। अपीलीय प्राधिकार—सह—प्रधान सचिव, गृह द्वारा श्री शर्मा के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उक्त दंड को यथावत् रखा गया था, जिसे विभागीय ज्ञापांक 6724 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा संसूचित किया गया था।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No-922/2015 में दिनांक 07.05.2018 को पारित न्यायादेश में विभागीय आदेश ज्ञापांक 4794 दिनांक 03.09.2014 एवं विभागीय ज्ञापांक 6724 दिनांक 29.12.2014 को निरस्त करते हुए सक्षम प्राधिकार को नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही करने को स्वतंत्र रखा गया है। माननीय न्यायालय के द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 4493 दिनांक 03.07.2018 के द्वारा आदेश ज्ञापांक 4794 दिनांक 03.09.2014 एवं ज्ञापांक 6724 दिनांक 29.12.2014 को निरस्त किया गया है। साथ ही उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री शर्मा के विरुद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

3. मंडल कारा, मधुबनी में दिनांक 11.09.2012 को विचाराधीन बंदी मो0 साबीर के पलायन की घटना में श्री शर्मा के द्वारा लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है।

श्री शर्मा का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

4. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति काराधीक्षक (एक अन्य मामले में निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री शर्मा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

7. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

8. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

अंजनि कुमार, उप—सचिव—सह—उप निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 32—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>